

| कक्षा : बी.काम. भाग-दो , गुप-ए |           |                   |            |                           | विषय : वाणिज्य                                                     |
|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| दिनांक                         | व्याख्यान | प्राध्यापक का नाम | प्रश्नपत्र | अध्याय                    | शीर्षक                                                             |
| 16.07.2012                     | 1.        | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | लागत लेखांकन              | अवधारणा, आवश्यकता, कार्य व महत्व                                   |
| 17.07.2012                     | 2.        | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | लागत लेखांकन              | प्रकृति एवं लागत लेखांकन की पद्धति                                 |
| 18.07.2012                     | 3.        | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | लागत के तख एवं वर्गीकरण   | लागत के तत्व                                                       |
| 19.07.2012                     | 1.        | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | आयकर-विषय प्रवेश          | आयकर से आशय, उद्देश्य, आयकर की गणना का आधार                        |
| 20.07.2012                     | 2.        | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | आयकर विषय प्रवेश          | कर-निर्धारण वर्ष, गत वर्ष, करदाता, माना हुआ करदाता, चूक में करदाता |
| 21.07.2012                     |           |                   |            | <b>कक्षाध्यापन</b>        |                                                                    |
| 23.07.2012                     | 4.        | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | लागत के तत्व एवं वर्गीकरण | लागत के वर्गीकरण                                                   |
| 25.07.2012                     | 5.        | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | व्यय                      | प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की व्याख्या                          |
| 26.07.2012                     | 3.        | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | कृषि आय                   | कृषि आय से आशय, कृषि आय के प्रकार                                  |
| 27.07.2012                     | 4.        | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | कृषि आय                   | अंशतः कृषि आय                                                      |
| 28.07.2012                     |           |                   |            | <b>कक्षाध्यापन</b>        |                                                                    |
| 30.07.2012                     | 6.        | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | उपरिव्ययों                | उपरिव्ययों का अर्थ                                                 |
| 31.07.2012                     | 7.        | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | उपरिव्ययों                | उपरिव्ययों का बंटवारा एवं प्रक्रिया                                |
| 01.08.2012                     | 8.        | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | सामग्री लागत नियन्त्रण    | फीको पद्धति                                                        |

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

पाठ्यक्रम योजना

1

| कक्षा : बी.काम. भाग-दो , गुप-ए |           |                   |            |                                  | विषय : वाणिज्य                                      |
|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| दिनांक                         | व्याख्यान | प्राध्यापक का नाम | प्रश्नपत्र | अध्याय                           | शीर्षक                                              |
| 03.08.2012                     | 5.        | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | निवास स्थान तथा कर दायित्व       | निवासी के प्रकार, श्रेणी-अ तथा ब की शर्तें          |
| 04.08.2012                     | 6.        | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | निवास स्थान तथा कर दायित्व       | कर दायित्व (निवास स्थान के आधार पर कुल आय)          |
| 06.08.2012                     | 9.        | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | सामग्री लागत नियन्त्रण           | फीफो पद्धति                                         |
| 07.08.2012                     | 10.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | सामग्री लागत नियन्त्रण           | औसत मूल्य पद्धतियां                                 |
| 08.08.2012                     | 11.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | सामग्री लागत नियन्त्रण           | औसत मूल्य पद्धतियां                                 |
| 09.08.2012                     |           |                   |            | <b>कक्षाध्यापन</b>               |                                                     |
| 11.08.2012                     | 7.        | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | निवास स्थान तथा कर दायित्व       | कर-भार सम्बन्धी प्रश्न                              |
| 13.08.2012                     | 12.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | इकाई अथवा उत्पादन लागत पद्धतियां | अर्थ एवं प्रारूप                                    |
| 14.08.2012                     | 13.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | इकाई अथवा उत्पादन लागत पद्धतियां | प्रकृति, लागत लेखे एवं लागत पत्र में अन्तर          |
| 18.08.2012                     | 8.        | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | वेतन                             | वेतन से आशय, भत्ते के प्रकार                        |
| 20.08.2012                     | 14.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | उत्पादन लागत पद्धति              | साधारण लागत पर                                      |
| 21.08.2012                     | 15.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | उत्पादन लागत पद्धति              | साधारण लागत पद्धति                                  |
| 22.08.2012                     | 16.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | उत्पादन लागत पद्धति              | जब निर्मित माल का प्रारम्भिक व अन्तिम शेष दिया हों। |
| 23.08.2012                     |           |                   |            | <b>कक्षाध्यापन</b>               |                                                     |
| 24.08.2012                     | 9.        | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | वेतन                             | प्रावीडेण्ड फण्ड, प्रकार एवं अन्तर                  |

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

पाठ्यक्रम योजना

2

| कक्षा : बी.काम. भाग-दो , गुप-ए |           |                   |            |                     | विषय : वाणिज्य                                            |
|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| दिनांक                         | व्याख्यान | प्राध्यापक का नाम | प्रश्नपत्र | अध्याय              | शीर्षक                                                    |
| 25.08.2012                     | 10.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | वेतन                | अनुलाभ-किराये से मुक्त रहने के मकान का मूल्यांकन          |
| 27.08.2012                     | 17.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | उत्पादन लागत पद्धति | चालू कार्य का दिया होना                                   |
| 28.08.2012                     | 18.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | उत्पादन लागत पद्धति | दो अवधियों का तुलनात्मक अध्ययन                            |
| 29.08.2012                     | 19.       | सुभाष गुप्ता      | प्रथम      | उत्पादन लागत पद्धति | स्थिर और परिवर्तनशील व्यय                                 |
| 30.08.2012                     |           |                   |            | <b>मूल्यांकन</b>    |                                                           |
| 01.09.2012                     | 11.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | वेतन                | मोटरकार की सुविधा का मूल्यांकन चिकित्सा सुविधा            |
| 03.09.2012                     | 20.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | उत्पादन लागत पद्धति | नष्ट एवं दोष मुक्त उत्पादन                                |
| 04.09.2012                     | 21.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | निविदा मूल्य        | अर्थ, चरण एवं मूल्य ज्ञात करते समय ध्यान देने योग्य बातें |
| 05.09.2012                     | 22.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | निविदा मूल्य        | प्रति ईकाई लागत के आधार पर निविदा मूल्य ज्ञात करना        |
| 06.09.2012                     | 12.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | वेतन                | अन्य अनुलाभ                                               |
| 07.09.2012                     |           |                   |            | <b>कक्षाध्यापन</b>  |                                                           |
| 08.09.2012                     | 13.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | वेतन                | ग्रेजुइटी                                                 |
| 10.09.2012                     | 23.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | निविदा मूल्य        | जब निविदा के लिए प्रयुक्त सामग्री एवं श्रम की लागत        |
| 11.09.2012                     | 24.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | निविदा मूल्य        | जब लागत में विभिन्न मदों के परिवर्तन की संभावना हो।       |
| 12.09.2012                     | 25.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | निविदा मूल्य        | स्थिर, परिवर्तनशील एवं अर्द्धपरिवर्तनशील लागत             |

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

पाठ्यक्रम योजना

3

| कक्षा : बी.काम. भाग-दो , गुप-ए |           |                   |            |                         | विषय : वाणिज्य                                          |
|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| दिनांक                         | व्याख्यान | प्राध्यापक का नाम | प्रश्नपत्र | अध्याय                  | शीर्षक                                                  |
| 13.09.2012                     | 14.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | वेतन                    | पेंशन                                                   |
| 14.09.2012                     |           |                   |            | <b>कक्षाध्यापन</b>      |                                                         |
| 15.09.2012                     | 15.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | वेतन                    | अर्जित अवकाश वेतन, सेवा से छूटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति |
| 18.09.2012                     | 26.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | निविदा मूल्य            | स्थिर परिवर्तनशील एवं अर्द्ध परिवर्तनशील लागत           |
| 19.09.2012                     | 27.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | परिचालन लागत पद्धति     | परिचालन लागत का अर्थ, क्षेत्र एवं ईकाई                  |
| 20.09.2012                     | 16.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | वेतन                    | स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण, प्रविडेण्ड फण्ड                  |
| 21.09.2012                     |           |                   |            | <b>मूल्यांकन</b>        |                                                         |
| 22.09.2012                     | 17.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | मकान सम्पत्ति से आय     | मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात करना एवं स्वीकृत कटौतियां   |
| 24.09.2012                     | 28.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | परिचालन लागत पद्धति     | उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण                                |
| 25.09.2012                     | 29.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | प्रक्रियाएं लागत पद्धति | परिचय, सिद्धान्त एवं उद्देश्य                           |
| 26.09.2012                     | 30.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | प्रक्रिया लागत पद्धति   | सामान्य प्रक्रियाएं लागत लेखे                           |
| 27.09.2012                     | 18.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | मकान सम्पत्ति से आय     | ऋण के व्याज के सम्बन्ध में प्रावधान                     |
| 01.10.2012                     | 31.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | प्रक्रिया लागत पद्धति   | उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण                                |
| 04.10.2012                     |           |                   |            | <b>कक्षाध्यापन</b>      |                                                         |
| 05.10.2012                     | 19.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | मकान सम्पत्ति से आय     | क्रियात्मक प्रश्न                                       |

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

पाठ्यक्रम योजना

4

| कक्षा : बी.काम. भाग-दो, गुप-ए |           |                   |            |                        | विषय : वाणिज्य                                            |
|-------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| दिनांक                        | व्याख्यान | प्राध्यापक का नाम | प्रश्नपत्र | अध्याय                 | शीर्षक                                                    |
| 06.10.2012                    | 20.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | ह्रास                  | आयकर अधिनियम में ह्रास से आशय, स्वीकृत ह्रास की दर        |
| 08.10.2012                    | 32.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | प्रक्रिया लागत पद्धति  | जब क्षय है तथा प्रत्येक प्रक्रिया में प्रा. तथा अन्तिम    |
| 11.10.2012                    |           |                   |            | <b>कक्षाध्यापन</b>     |                                                           |
| 12.10.2012                    | 21.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | व्यापार एवं पेशे से आय | प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधि द्वारा व्यापार की कर योग्य आय |
|                               |           |                   |            |                        | ज्ञात करना, कटौतियाँ                                      |
| 13.10.2012                    | 22.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | व्यापार एवं पेशे से आय | पेशे की कर योग्य आय ज्ञात करना                            |
| 17.10.2012                    | 33.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | प्रक्रिया लागत पद्धति  | जब भार में कमी है तथा अवशेष की बिक्री होती है।            |
| 18.10.2012                    |           |                   |            | <b>कक्षाध्यापन</b>     |                                                           |
| 19.10.2012                    | 23.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | पूँजी लाभ              | पूँजी सम्पत्ति, हस्तान्तरण, पूँजी लाभ की गणना विधि        |
| 20.10.2012                    | 24.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | पूँजी लाभ              | प्राप्त करने की लागत, कर मुक्त पूँजी                      |
| 29.10.2012                    |           |                   |            | <b>मूल्यांकन</b>       |                                                           |
| 30.10.2012                    | 34.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | प्रक्रिया लागत पद्धति  | उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण                                  |
| 31.10.2012                    | 35.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | प्रक्रिया लागत पद्धति  | असाधारण क्षय एवं बचत का अर्थ                              |
| 01.11.2012                    | 25.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | पूँजी लाभ              | क्रियात्मक प्रश्न                                         |
| 02.11.2012                    | 26.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | अन्य साधनों से आय      | वे आय जो इस शीर्षक में कर योग्य है                        |

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

पाठ्यक्रम योजना

5

| कक्षा : बी.काम. भाग-दो , गुप-ए |           |                   |            |                       | विषय : वाणिज्य                                  |
|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| दिनांक                         | व्याख्यान | प्राध्यापक का नाम | प्रश्नपत्र | अध्याय                | शीर्षक                                          |
| 03.11.2012                     | 27.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | अन्य साधनों से आय     | प्रमुख आयों का विवेचन एवं कटौतियाँ              |
| 05.11.2012                     |           |                   |            | <b>कक्षाध्यापन</b>    |                                                 |
| 06.11.2012                     | 36.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | प्रक्रिया लागत पद्धति | उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण                        |
| 07.11.2012                     | 37.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | प्रक्रिया लागत पद्धति | उपोष्पाद एवं संयुक्त लागतों का विभाजन           |
| 08.11.2012                     | 28.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | अन्य साधनों से आय     | क्रियात्मक प्रश्न                               |
| 09.11.2012                     | 29.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | धारा 80 सी से 80 यू   | कतिपय आयों के सम्बन्ध में पी जाने वाली कटौतियाँ |
|                                |           |                   |            | तक की कटौतियाँ        |                                                 |
| 16.11.2012                     | 30.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | धारा 80 सी से 80 यू   | भुगतानों के सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौतियाँ   |
|                                |           |                   |            | तक की कटौतियाँ        |                                                 |
| 17.11.2012                     | 31.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | धारा 80 सी से 80 यू   | औद्योगिक उपक्रम, होटल आदि के लिए कटौती          |
|                                |           |                   |            | तक की कटौतियाँ        |                                                 |
| 19.11.2012                     |           |                   |            | <b>कक्षाध्यापन</b>    |                                                 |
| 20.11.2012                     | 38.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | प्रक्रिया लागत पद्धति | उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण                        |
| 21.11.2012                     | 39.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | अन्तर प्रक्रिया लाभ   | अर्थ एवं उसकी व्याख्या                          |
|                                |           |                   |            |                       |                                                 |

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

पाठ्यक्रम योजना

6

| कक्षा : बी.काम. भाग-दो , गुप-ए |           |                   |            |                                                 | विषय : वाणिज्य                                                   |
|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| दिनांक                         | व्याख्यान | प्राध्यापक का नाम | प्रश्नपत्र | अध्याय                                          | शीर्षक                                                           |
| 22.11.2012                     | 32.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | व्यक्तियों की कुल आय की गणना एवं कर दायित्व     | एक व्यक्ति की कुल आय की गणना करने की विधि                        |
| 23.11.2012                     | 33.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | व्यक्तियों की कुल आय की गणना एवं कर दायित्व     | आयकर में से छूट प्रतिभूति सव्यवहार कृषि आय                       |
| 26.11.2012                     |           |                   |            | <b>मूल्यांकन</b>                                |                                                                  |
| 27.11.2012                     | 40.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | अन्तर प्रक्रिया लाभ                             | उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण                                         |
| 29.11.2012                     | 34.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | व्यक्तियों की कुल आय की गणना एवं कर दायित्व     | विविध क्रियात्मक प्रश्न                                          |
| 30.11.2012                     | 35.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | एच.यू.एफ. का कर निर्धारण एवं कर दायित्व की गणना | एच.यू.एफ. का आशय, स्वीकृत कटौतियां                               |
| 01.12.2012                     | 36.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | एच.यू.एफ. का कर निर्धारण एवं कर दायित्व की गणना | कुल आय की गणना एवं देय आयकर                                      |
| 03.12.2012                     | 41.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | अन्तर प्रक्रिया लाभ                             | उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण                                         |
| 07.12.2012                     | 37.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय का कर-दायित्व     | साझेदारी फर्म तथा साझेदार से आशय, 184 पूर्ति न हो तो कर निर्धारण |

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

पाठ्यक्रम योजना

7

| कक्षा : बी.काम. भाग-दो , गुप-ए |           |                   |            |                                             | विषय : वाणिज्य                                                |
|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| दिनांक                         | व्याख्यान | प्राध्यापक का नाम | प्रश्नपत्र | अध्याय                                      | शीर्षक                                                        |
| 08.12.2012                     | 38.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय का कर दायित्व | फर्म से साझेदार की आय की गणना धारा 40 (बी) के स्पष्टीकरण      |
| 11.12.2012                     |           |                   |            | <b>कक्षाध्यापन</b>                          |                                                               |
| 12.12.2012                     | 42.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | ठेका लागत पद्धति                            | अर्थ, उद्देश्य, प्रकार                                        |
| 13.12.2012                     | 39.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय का कर दायित्व | फर्म का विघटन                                                 |
| 14.12.2012                     | 40.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय का कर दायित्व | विविध क्रियात्मक-प्रश्न                                       |
| 15.12.2012                     | 41.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना    | हानियों की पूर्ति के सम्बन्ध में प्रावधान                     |
| 17.12.2012                     | 43.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | ठेका लागत पद्धति                            | पूर्ण ठेके का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण                        |
| 18.12.2012                     |           |                   |            | <b>कक्षाध्यापन</b>                          |                                                               |
| 19.12.2012                     | 44.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | ठेका लागत पद्धति                            | पूर्ण ठेके का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण                        |
| 20.12.2012                     | 42.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | हानियों की पूर्ति एवं उन्हें आगे ले जाना    | हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना                   |
| 21.12.2012                     | 43.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | आयकर प्राधिकारी तथा उनके अधिकारी            | प्रत्यक्ष करो का केन्द्रीय बोर्ड प्रमुख निदेशक, मुख्य कमिश्नर |
| 22.12.2012                     | 44.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | आयकर प्राधिकारी तथा उनके अधिकारी            | कर-निर्धारण : अधिकारी उसके अधिकार एवं कार्य                   |

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

पाठ्यक्रम योजना

8

| कक्षा : बी.काम. भाग-दो , गुप-ए |           |                   |            |                             | विषय : वाणिज्य                                  |
|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| दिनांक                         | व्याख्यान | प्राध्यापक का नाम | प्रश्नपत्र | अध्याय                      | शीर्षक                                          |
| 24.12.2012                     | 45.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | ठेका लागत पद्धति            | अपूर्ण ठेके का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण         |
| 26.12.2012                     |           |                   |            | <b>मूल्यांकन</b>            |                                                 |
| 27.12.2012                     | 45.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | उदगम स्थान पर कर की कटौती   | उदगम स्थान पर कर की कटौती का अर्थ अधिकार के     |
|                                |           |                   |            |                             | सम्बन्ध में महत्वपूर्ण नोट                      |
| 28.12.2012                     | 46.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | कर का अग्रिम भुगतान         | अग्रिम कर की गणना विधि                          |
| 29.12.2012                     | 47.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | कर का अग्रिम भुगतान         | पूँजी लाभ एवं आकस्मिक आय पर अग्रिम कर का भुगतान |
| 31.12.2013                     | 46.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | ठेका लागत पद्धति            | अपूर्ण ठेके का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण         |
| 01.01.2013                     | 47.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | ठेका लागत पद्धति            | अपूर्ण ठेके का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण         |
| 02.01.2013                     |           |                   |            | <b>कक्षाध्यापन</b>          |                                                 |
| 03.01.2013                     | 48.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | कर का अग्रिम भुगतान         | व्यय सम्बन्धी प्रावधान                          |
| 04.01.2013                     | 49.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | अपील तथा पुनर्विचार         | अपील की कार्यवाही                               |
| 07.01.2013                     | 48.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | ठेका लागत पद्धति            | संदिग्धता के लिए संचय                           |
| 08.01.2013                     | 49.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | ठेका लागत पद्धति            | लगभग पूर्ण होने वाले ठेके                       |
| 9.01.2013                      |           |                   |            | <b>कक्षाध्यापन</b>          |                                                 |
| 10.01.2013                     | 50.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | अर्थदण्ड, जुर्म तथा अभियोजन | सामान्य सिद्धान्त तथा अर्थ दण्ड की मर्दे        |

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल भूसड़, गोरखपुर

पाठ्यक्रम योजना

9

| कक्षा : बी.काम. भाग-दो , गुप-ए |           |                   |            |                              | विषय : वाणिज्य                                           |
|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| दिनांक                         | व्याख्यान | प्राध्यापक का नाम | प्रश्नपत्र | अध्याय                       | शीर्षक                                                   |
| 11.01.2013                     | 51.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | अर्थदण्ड, जुर्म तथा अभियोजन  | अर्थदण्ड लगाने की समय सीमा                               |
| 12.01.2013                     | 52.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | अर्थ दण्ड, जुर्म तथा अभियोजन | जुर्म तथा अभियोजन                                        |
| 16.01.2013                     | 50.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | ठेका लागत पद्धति             | जब ठेकेदार ने अनुरक्षण तथा देख रेख की गारण्टी दे रखी है। |
| 17.01.2013                     | 53.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | कर नियोजन की अवधारणा         | कर नियोजन का आशय एवं प्रभार                              |
| 18.01.2013                     | 54.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | कर नियोजन की अवधारणा         | कर वंचना एवं कर बचाव तथा दोनों में अन्तर                 |
| 19.01.2013                     | 55.       | डॉ. राजेश शुक्ल   | द्वितीय    | कर नियोजन की अवधारणा         | कर प्रबन्ध                                               |
| 21.01.2013                     | 51.       | श्री सुभाष शुक्ल  | प्रथम      | अंकेक्षण                     | अंकेक्षण का अर्थ एवं परिभाषा                             |
| 22.01.2013                     |           |                   |            | <b>कक्षाध्यापन</b>           |                                                          |
| 23.01.2013                     | 52.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | अंकेक्षण                     | कार्य विधि, पुस्तपालन एवं लेखाकर्म                       |
| 24.01.2013                     | 56.       | डॉ. राजेश शुक्ल   |            | रिविजन                       |                                                          |
| 25.01.2013                     | 57.       | डॉ. राजेश शुक्ल   |            | रिविजन                       |                                                          |
| 28.01.2013                     | 53.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | अंकेक्षण                     | लेखाकर्म एक आवश्यकता है जबकि अंकेक्षण विलासित है         |
| 29.01.2013                     |           |                   |            | <b>मूल्यांकन</b>             |                                                          |
| 30.01.2013                     | 54.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | अंकेक्षण                     | अंकेक्षण एवं अनुसंधान                                    |
| 31.01.2013                     | 58.       | डॉ. राजेश शुक्ल   |            | रिविजन                       |                                                          |

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल भूसड़, गोरखपुर

पाठ्यक्रम योजना

10

| कक्षा : बी.काम. भाग-दो , गुप-ए |           |                   |            |                             | विषय : वाणिज्य                    |
|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| दिनांक                         | व्याख्यान | प्राध्यापक का नाम | प्रश्नपत्र | अध्याय                      | शीर्षक                            |
| *                              | 55.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | चालू अंकेक्षण               | अर्थ, दोष एवं बचने के उपाय        |
| *                              | 56.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | अन्तरिम अंकेक्षण            | अर्थ, लाभ एवं दोष                 |
| *                              | 57.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | अन्तिम अंकेक्षण             | अर्थ, लाभ एवं दोष                 |
| *                              | 58.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | अंकेक्षण कार्यक्रम          | अर्थ परिभाषा, लक्षण एवं सावधनियौ  |
| *                              | 59.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | अंकेक्षण कार्यक्रम          | अंकेक्षण कार्यक्रम के प्रकार      |
| *                              | 60.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | परीक्षण जांच एवं नैतिक जांच | अर्थ, परिभाषा, लाभ एवं हानियाँ    |
| *                              | 61.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | प्रमाणन                     | अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं महत्व |
| *                              | 62.       | श्री सुभाष गुप्ता | प्रथम      | सत्यापन मूल्यांकन           | अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं महत्व |
| * 8 Extra Classes              |           |                   |            |                             |                                   |